

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सिटी की फैसिलिटीज को दुबारा खोलने और सेवाएं दुबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (26 अगस्त, 2020) – 9 सितम्बर से शुरू करते हुए, सिटी हॉल (City Hall) सहित, सिटी की कार्पोरेट फैसिलिटीज, केवल तय मुलाकात के द्वारा, व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जनता हेतु दुबारा खुलेंगी। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपायों को सहयोग देने में मदद के लिए, बिना तय मुलाकात के लिए सभी फैसिलिटीज बंद रहेंगी।

16 सितम्बर से शुरू करते हुए, काउंसिल चैम्बर्स (Council Chambers) जनता के लिए दुबारा खुलेंगी। इनमें केवल पहले से बुकिंग करवाने से, व्यक्तिगत मीटिंगों में शामिल होने के लिए, अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। सिटी, कमेटी (Committee) और सिटी काउंसिल (City Council) की सभी मीटिंगों में शामिल होने, पेश होने और प्रतिनिधित्व करने के लिए, ऑनलाइन विकल्प प्रदान करना जारी रखेगी।

व्यक्तिगत सेवाओं और तय मुलाकात संबंधी बुकिंग प्रक्रिया के विवरण, आने वाले दिनों में सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इस बारे में विवरणों के लिए कि वहां जाते समय क्या उम्मीद की जाए और जनता को सुरक्षित रखने के लिए सिटी अपनी भूमिका कैसे निभा रही है, [brampton.ca/reopening](http://brampton.ca/reopening) पर जाएं।

### रेक्रिएशन सेंटर

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की चुनिंदा रेक्रिएशन संबंधी फैसिलिटीज, केवल आरक्षित (रिज़र्व की गई) मुलाकातों के लिए ही दुबारा खुलेंगी। इनडोर पूल्स, फिटनेस सुविधाएं और सीमित आम प्रोग्राम, रिज़र्वेशन द्वारा लेबर डे (Labour Day) के बाद दुबारा शुरू होंगे। जगह आरक्षित कैसे की जाए, इस बारे में जानकारी सहित, लेबर डे के बाद शुरू होने वाले सभी प्रोग्रामों और सेवाओं के बारे में और जानकारी, 1 सितम्बर को [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) पर उपलब्ध होगी।

### हवाले

“इस पड़ाव तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए, हमारे समुदाय के प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद। हमने व्यक्तिगत सेवाओं को सावधानी भरे फेजों में दुबारा खोलने और दुबारा पेश करने के द्वारा, हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह का पालन करना जारी रखा है। हालांकि यह हम सबके लिए नई वास्तविकता है, फिर भी हम इसे, हर किसी के लिए सुरक्षित बनाने और निर्विघ्न, परिवर्तन करने पर काम कर रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी को दुबारा खोलने के हमारे सर्वेक्षण के द्वारा, हमने सुना कि 70% निवासी चाहते थे कि सिटी, जितना संभव हो सके, अधिक से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करे। बिल्डिंग परमिटों, कार्यक्रमों से लेकर, सार्वजनिक परामर्श तक, हमने हमारे समुदाय और कारोबारों के लिए अधिक सुरक्षित ऑनलाइन विकल्प पेश करने पर पूरा ध्यान दिया है। हम कारोबार करने के नए तरीके ढूंढने को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे, जो सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक हों, जब हम सिटी को धीरे-धीरे दुबारा खोलना जारी रख रहे हैं।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, मेयर्स रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“पिछले कुछ महीने से, स्टाफ, सुरक्षित रूप से दुबारा खोलने के लिए, हमारी फैसिलिटीज को तैयार कर रहा है। हमने सभी कर्मचारियों के लिए, शारीरिक दूरी, अधिक बार सफाई करने की प्रक्रियाएं और रोजाना सक्रिय स्क्रीनिंग जैसे उपाय पेश किए। साथ ही, हमने सुदूर काम संबंधी पहुंच (रिमोट वर्क एक्सेस) को भी बढ़ावा दिया। ये सभी प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने समुदाय को प्रदान की जाने वाली सेवा में बिना समझौता किए, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों के मुताबिक काम कर रहे हैं।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)